

सूर्य की शक्ति के प्रयोग का नियंत्रण अपने हाथों में लें

विक्टोरियावासी अपने ऊर्जा बिलों पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं और सोलर विक्टोरिया के कार्यक्रमों के माध्यम से सभी विक्टोरियावासियों के लिए अधिक स्वच्छ, बेहतर भविष्य प्रदान कर रहे हैं।



Solar
Victoria



सौर ऊर्जा तंत्र स्थापित क्यों करें?



अपने बिजली के बिलों को कम करें



अपनी ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाएँ



सौर उद्योग में नौकरियों का निर्माण करने में सहायता करें



जलवायु परिवर्तन का सामना करें

सौर आवास (Solar Homes) और व्यवसायों के लिए सौर (Solar for Business) कार्यक्रम विक्टोरिया के घर-परिवारों और व्यवसायों को अपने बिजली के बिलों को नियंत्रित करने, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और सभी विक्टोरियावासियों के लिए अधिक स्वच्छ, बेहतर भविष्य प्रदान करने में सहायता दे रहे हैं।

ये कार्यक्रम सौर उपकरण प्राप्त करना आसान बनाते हैं, जिसमें सौर पैनलों (पीवी), सौर गर्म जल (सोलर हॉट वाटर) और सौर (सोलर) बैटरियों में छूटों के साथ-साथ सौर पैनलों (पीवी) के लिए ब्याजमुक्त ऋणों जैसे प्रोत्साहन भी शामिल हैं।

आपका सौर रिटेलर आपकी ओर से छूट का दावा करेगा और छूट की राशि को आपके सिस्टम और इंस्टॉलेशन की संपूर्ण लागत में से काट लिया जाएगा। एक बार इंस्टॉल कर दिए जाने के बाद सभी बकाया शेषराशि का भुगतान सीधे अपने सौर रिटेलर को करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

उपलब्ध छूट

Solar panel (PV) rebate (सौर पैनल (पीवी) छूट)

पात्र घर-परिवार सौर पैनलों (पीवी) की लागत में छूट का दावा कर सकते हैं, जिनमें किराये की संपत्तियों के मालिक भी शामिल हैं।

Solar for rentals rebate (किराएदारी के लिए सौर छूट)

पात्र किराये की संपत्तियाँ सौर पैनलों (पीवी) की लागत में छूट का उपयोग कर सकती हैं, ताकि किराएदारों को नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ सुलभ हो सकें।

Solar hot water rebate (सौर गर्म जल छूट)

पात्र घर-परिवार सौर गर्म जल प्रणालियों की लागत में छूट का दावा कर सकते हैं।

Solar battery rebate (सौर बैटरी छूट)

पात्र घर-परिवार सौर बैटरी की लागत में छूट का दावा कर सकते हैं।

Solar for Business (व्यवसायों के लिए सौर)

स्वामित्व अथवा किराए के परिसर वाले पात्र व्यवसाय सौर पैनलों (पीवी) की लागत में छूट का दावा कर सकते हैं।

प्रत्येक छूट धारा की अपनी-अपनी पात्रता आवश्यकताएँ और आवेदन प्रक्रिया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कृपया वेबसाइट solar.vic.gov.au पर स्वयं जानकारी प्राप्त करें।

एक बार जब आपको विश्वास हो जाता है कि आपकी संपत्ति पात्रता के मानदंडों को पूरा करती है, तो आप इस बारे में खोजबीन आरंभ कर सकते/सकती हैं कि कौन से सौर व्यवसाय और उत्पाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अधिकृत हैं और आपकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

क्या आप इसमें ब्याजमुक्त ऋण भी जोड़ना चाहते/चाहती हैं?

लागत को और भी कम करने के लिए अपने स्वामित्व की संपत्ति में निवास करने वाले लोग और किराएदारी प्रदाता सौर पैनल (पीवी) प्रणालियों के लिए ब्याजमुक्त ऋण का आवेदन कर सकते हैं, जो उनकी सौर पैनल (पीवी) छूट धनराशि के बराबर हो सकता है। सौर विक्टोरिया पोर्टल (Solar Victoria Portal) के माध्यम से आपकी छूट आवेदन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में आपको ऋण के लिए अपनी पात्रता के बारे में अधिसूचित किया जाएगा। इस ऋण को चार वर्षों की अवधि में चुकाना होगा। **सौर गर्म जल, सौर बैटरियों या व्यवसायों के लिए सौर के लिए ऋण उपलब्ध नहीं हैं।**

आरंभ करने से पहले: कार्यक्रम के लिए पात्रता को समझें

विक्टोरियावासी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे:

	सौर पैनल (पीवी) छूट	किराएदारी के लिए सौर छूट	सौर गर्म जल छूट	सौर बैटरी छूट	व्यवसाय के लिए सौर
आवेदक को उस संपत्ति का मालिक और निवासी होना चाहिए, जहां सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है।	✓		✓	✓	
आवेदक ने संपत्ति के मालिक और निवासी के रूप में सौर गृह कार्यक्रम के तहत पहले ही छूट का दावा नहीं किया है	✓		✓	✓	
सभी मालिकों की सकल घरेलू करयोग्य आय \$180,000 प्रतिवर्ष से कम है (ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय की ओर से प्राप्त आपकी आकलन की अधिसूचना के आधार पर)	✓		✓	✓	
यह एक मौजूदा संपत्ति है, जिसका मूल्य \$3 मिलियन से कम है	✓	✓	✓	✓	
संपत्ति में (1 नवंबर 2009 के बाद से) पीवी प्रणाली मौजूद नहीं है	✓	✓			✓
संपत्ति के पते पर पहले कभी सौर गृह कार्यक्रम* में भाग नहीं लिया गया है। *हमारी ग्राहक सेवा टीम इस बात की पुष्टि कर सकती है कि किसी संपत्ति ने पहले कभी सौर गृह कार्यक्रम में भाग लिया है या नहीं	✓	✓	✓	✓	
किराएदारी-प्रदाता और किराएदार के बीच सौर गृह कार्यक्रम समझौते पर किराएदारी-प्रदाता तथा सभी किराएदारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं		✓			
सभी किराएदारों की सकल घरेलू करयोग्य आय \$180,000 प्रतिवर्ष से कम है (ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय की ओर से प्राप्त आपकी आकलन की अधिसूचना के आधार पर)		✓			
यदि गर्म जल प्रणाली को बदला जाना है, तो यह खरीद की तिथि से कम से कम तीन वर्ष बाद किया जाना होगा			✓		
संपत्ति नव-निर्मित नहीं है			✓		
संपत्ति में पहले से ही 5 किलोवॉट के बराबर या इससे अधिक क्षमता के सौर पीवी पैनल मौजूद हैं अथवा संपत्ति सौर बैटरी इंस्टॉलेशन के संयोजन से इसे इंस्टॉल करने की व्यवस्था कर रही है				✓	
अपने वितरित नेटवर्क सेवा प्रदाता (डीएनएसपी) [Distributed Network Service Provider (DNSP)] से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। मालिक अपने वितरण नेटवर्क सेवा प्रदाता (Distribution Network Service Provider) से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमत है/हैं				✓	
स्टोरेज समाधान हमारी अनुमोदित बैटरी अनुसूची (Approved Battery List) में सूचीबद्ध है और संपत्ति में पहले से ही ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली मौजूद नहीं है				✓	
ऐसे व्यवसाय के मालिक हैं, जिसमें व्यवसाय के मालिक के अलावा कम से कम एक और 20 से कम व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है					✓
व्यवसाय का संचालन गैर-आवासीय परिसर से किया जाता है व्यवसाय का अपना स्वयं का मीटर है					✓

हमसे संपर्क करें

आपको वेबसाइट www.solar.vic.gov.au पर
कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती
है या आप हमारी ग्राहक सेवा टीम को 1300 376 393
पर (कार्यकाल के दौरान) कॉल कर सकते/सकती हैं



यदि आप अपनी भाषा में हमारे साथ बात करना
चाहते/चाहती हैं, तो आप National Translating
and Interpreting Service (राष्ट्रीय अनुवाद और
दुभाषिया सेवा) को 131 450 पर कॉल करके नि:शुल्क
फोन अनुवाद सेवाएँ प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

© विक्टोरिया राज्य पर्यावरण, भूमि, जल एवं नियोजन विभाग 2021

अस्वीकरण

यह प्रकाशन आपके लिए सहायक हो सकता है, लेकिन विक्टोरिया राज्य और
उसके कर्मचारी इस बात की कोई गारंटी नहीं देते हैं कि प्रकाशन किसी भी
प्रकार की त्रुटि से मुक्त है या आपके विशेष प्रयोजनों के लिए पूर्णतः उपयुक्त
है तथा इसलिए राज्य इस प्रकाशन में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भर
करने से आपके लिए उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी त्रुटि, हानि या अन्य
परिणाम के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करता है।